NDA SECURITIES LIMITED



: Bombay Stock Exchange Ltd. : National Securities Depository Ltd.

Registered & Corporate Office: E-157, 2nd Floor, Kalkaji, New Delhi-110019

Phone: 011-46204000 (100 lines)

Email: info@ndaindia.com, website: www.ndaindia.com

CIN: L74899DL1992PLC050366

Dated: 15.11.2022

To,

The Manager (Listing) **BSE Limited**Phiroze Jeejeebhoy Towers

Dalal Street

Mumbai – 400 001

Sub: Submission of Newspapers Advertisement of Un-Audited Financial Results for the quarter ended on 30th September, 2022.

Ref: NDA Securities Ltd. Code No. 511535

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to the applicable Regulations of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended on 30th September, 2022, as published in "Financial Express" (English Newspaper) and "Veer Arjun" (Hindi Newspaper) on 14th November, 2022.

This is for your kind information and records.

Thanking you,

Yours faithfully For NDA Securities Limited

Sanjay Agarwal Managing Director DIN: 00010639



PUBLIC NOTICE Public is hereby informed that Sh. Yogender Kumar Sharma has claimed to the owner of HOUSE NO.232 (BACK PORTION) AREA MEASURING 46.5 SQ. YDS., OUT OF KHASRA NO.482MI, SITUATED AT VILLAGE MRZAPUR, MATA COLONY, SECTOR-12, VIJAY NAGAR, TEHSIL & DISTT. GHAZIABAD, UP and Now Sh. Anii Mohan has approached Religare Housing Development Finance Corporation Ltd. for loan against mortgage of above said property, if any person has any right, claim, title or interest in any manner over the said property then intimate within 7 days to Vikas Shokeen, Advocate, AB-18, Mianwali Nagar, Delhi -110087, Thereafter any kind of chairs will such a constant. any kind of claim will not be accepted.

VINTRON INFORMATICS LIMITED

CIN: L72100DL1991PLC045276 Registered Office: D-107 & 108, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020

Phone: EPABX – 43740000; Fax: +91-11-43740040
Website: www.vintroninformatic.com; Email: vil_vintron@hotmail.com

EXTRACTS OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE SECOND QUARTER AND HALF YEAR ENDED ON 30[™] SEPTEMBER 2022

| | | | | | | (Rs. In Lakhs) |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| | FOR 1 | HE QUARTER E | NDED | FOR THE HALI | YEAR ENDED | |
| PARTICULARS | 30.09.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2021 | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 31.03.2022 |
| | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Audited) |
| Total Income from Operations (Net) | 588.07 | 817.63 | 432.45 | 1,405.70 | 611.47 | 1,718.82 |
| Net Profit / (Loss) before exceptional / extraordinary items and tax | 91.49 | 17.98 | (40.56) | 109.47 | (107.10) | (92.94) |
| Net Profit / (Loss) after exceptional / extraordinary items and tax | 91.49 | 17.98 | (128.71) | 109.47 | (195.25) | (181.09) |
| Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 91.49 | 17.98 | (128.71) | 109.47 | (195.25) | (181.34) |
| Equity Share Capital | 783.66 | 783.66 | 783.66 | 783.66 | 783.66 | 783.66 |
| Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of the Previous Year) | - | ı | - | - | _ | (1,940.07) |
| Earning Per Share (before extraordinary items) (of Re.1/- each) | | | | | | |
| Basic: | 0.12 | 0.02 | (0.05) | 0.14 | (0.14) | (0.12) |
| Diluted: | 0.12 | 0.02 | (0.05) | 0.14 | (0.14) | (0.12) |
| Earning Per Share (after extraordinary items) (of Re.1/- each) | | | | | | |
| Basic: | 0.12 | 0.02 | (0.16) | 0.14 | (0.25) | (0.23) |
| Diluted: | 0.12 | 0.02 | (0.16) | 0.14 | (0.25) | (0.23) |

NOTES:

Place: New Delhi

- The above unaudited financial results have been reviewed by the Audit Committee and the same have been approved by the Board of Directors at its meeting held on 14" November 2022 in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and have been reviewed by the Statutory Auditors of the Company
- Previous period's figures have been regrouped / rearranged wherever necessary.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Half Yearly Unaudited Standalone Financial Results filed with the Stock Exchange/s under the Regulation 33 of the SFR (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Standalone Financial Results are available on the Stock Exchange websi (www.bseindia.com / www.dseindia.org.in / www.cse-india.com) and on the Company's website (www.vintroninformatic.com)

For and on behalf of the Board VINTRON INFORMATICS LIMITED

> (ARVIND SHARMA) Managing Director DIN: 00012177

GENOSS GENOSS COMPANY LIMITED, Korea PUBLIC NOTICE

To Whom It May Concern,

We, Genoss Co., Ltd. Located at 1F Gyeonggi R&D Center/ 226, 2F, GSBC, 105, Gwanggyo-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea, as the manufacturer of medical products, hereby authorize Riessa Enterprises Inc. a proprietary firm incorporated under the laws of India, having its registered office at C-2802, Lodha Bellisimo, NM Joshi Marg, Mahalaxmi, Mumbai-400011, as "EXCLUSIVE DISTRIBUTOR" of our product under brand GENOSS in the erritory of India from 1st May, 2022 for our products; MONALISA Derma Fillers idocaine and Non-Lidocaine.

The public is hereby suggested not to deal with any other persons posing to be distributors of Genoss Co. Ltd. Except for business with the official "EXCLUSIVE DISTRIBUTOR" authorized by Genoss Co Ltd. all responsibility for the illegal product lies with you and Genoss Co. Ltd. and Riessa Enterprises Inc shall not be liable or any loss or damage caused to them Should any one encounter or become aware of such unauthorized persons purporting to be distributors of Genoss Co Ltd. in India, please notify us at the address given below to curb such unauthorized

We authenticate that we shall take responsibility of this confirmation letter. f institution asks us any documents for verification or registration, we are willing to support any information which are required.

> Sincerely Genoss Co., Ltd. Sung Min Chung President of Genose 14th November, 2022

GENOSS COMPANY LIMITED 1F, Gyeonggi R&DB Center, 105 Gwanggyo-ro, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do - 16229 Korea Phone +82-31-888-5100. Fax +82-31-888-5136 www.genoss.com E-mail: jwnam@genoss.com

LADAM AFFORDABLE HOUSING LIMITED

CIN: L65990MH1979PLC021923
Regd Office: Ladam House, C-33, Opp. ITI, Wagle Industrial Estate, Thane (W) – 400 604. Tel No. 022 71191000 Email ID: compliances@ladam.in Website: www.ladamaffordablehousing.com

[Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015] Statement of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended September 30, 2022

| | | Sta | andalone | | Consolid | ated | Amt in Lakhs |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr. No. | Particulars | For the quarter ended 30 September 2022 | Previous Year ended figure 31/03/2022 | Corresponding 3 months ended in the previous year 30/09/2021 | For the quarter ended 30 September 2022 | Previous Year ended figure 31/03/2022 | Corresponding 3 months ended in the previous year 30/09/2021 |
| | | (Un-Audited) | (Audited) | (Un-Audited) | (Un-Audited) | (Audited) | (Un-Audited) |
| 1 | Total Income from Operations | 2.41 | 3.07 | 0.37 | 8.52 | 557.70 | 99.95 |
| 2 | Net Profit/(Loss) for the period (Before tax, Exceptional and/or Extraordinary items#) | -2.81 | -21.74 | -6.77 | -1.57 | 82.19 | -5.65 |
| 3 | Net Profit/(Loss) for the period Before tax (After Exceptional and/or Extraordinary items#) | -2.81 | -21.74 | -6.77 | -1.57 | 82.19 | -5.65 |
| 4 | Net Profit / (Loss) for the period After tax (After Exceptional and/or Extraordinary items#) | -2.81 | -21.74 | -6.77 | -1.57 | 55.90 | -5.65 |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)and Other Comprehensive Income (after tax)] | -2.98 | -19.87 | -6.91 | (1.74) | 57.76 | -5.79 |
| 6 | Equity Share Capital | 915.23 | 915.23 | 915.23 | 915.23 | 915.23 | 915.23 |
| 7 | Reserves (excluding Revaluation Reserves)as shown in Audited Balancesheet of the pervious year | _ | 1,384.41 | - | _ | 1,865.10 | _ |
| 8 | Earnings Per Share (of Rs. 5- each) (for continuing and discontinued operations) - | | | | | | |
| | Basic: Diluted: | -0.02 -0.02 | -0.12 -0.12 | -0.04 -0.04 | -0.01 -0.01 | 0.12 0.12 | -0.03 -0.03 |
| Not | es: | | | | | | |

a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Unaudited Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) website www.bseindia.com and on the Company's website www.ladamaffordablehousing.com

b) The impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote.

c) # - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules, AS Rules, whichever is applicable

For Ladam Affordable Housing Limited

(Amount Rs. in Lacs)

Sumesh Agarwal Date: 12/11/2022 Director Place: Thane DIN: 00325063

NDA SECURITIES LIMITED

CIN: L74899DL1992C050366

Registered Office: E-157, Second Floor, Kalka Ji, New Delhi- 110019 Phone: 91-46204000, Fax: 91-11-46204050, Email: info@ndaindia.com, Website: www.ndaindia.com

for the Quarter ended Sep 30, 2022

| | | | Standalone | | | Consolidated | | | | |
|---|---------------|------------|------------|-----------------|------------|---------------|------------|-----------------|------------|------------|
| Particulars | Quarter Ended | | Half Yea | Half Year Ended | | Quarter Ended | | Half Year Ended | | Year Ended |
| | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 31.03.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 31.03.2022 |
| | | Unaud | dited | | Audited | Unaudited | | | Audited | |
| Total Income | 141.39 | 205.13 | 308.56 | 380.68 | 802.50 | 141.59 | 205.37 | 308.95 | 381.10 | 803.38 |
| Net Profit Before Tax | 1.95 | 23.79 | 14.68 | 40.10 | 86.09 | 1.24 | 22.56 | 13.21 | 37.95 | 82.21 |
| Net Profit After Tax | -1.59 | 23.77 | 7.83 | 40.16 | 77.89 | -2.29 | 22.54 | 6.39 | 38.01 | 74.01 |
| Comprehensive income for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)] | -8.06 | 0.67 | -9.45 | 0.80 | 7.50 | -8.06 | 0.67 | -9.45 | 0.80 | 7.50 |
| Total Comprehensive income | -9.65 | 24.44 | -1.62 | 40.96 | 85.39 | -10.35 | 23.21 | -3.06 | 38.81 | 81.51 |
| Paid up Equity Share Capital (FV 10/-) | 509.22 | 509.22 | 509.22 | 509.22 | 509.22 | 509.22 | 509.22 | 509.22 | 509.22 | 509.22 |
| Other Equity | | | | | 319.31 | | | | | 289.89 |
| Earning Per Share in Rupees (Per Share of Rs. 10/- each Basic and Diluted) | -0.19 | 0.48 | -0.03 | 0.80 | 1.68 | -0.20 | 0.46 | -0.06 | 0.76 | 1.60 |

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure equirements) Regulations, 2015. The Full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock exchange website (www.bseindia.com) and Company's Website (www.ndaindia.com)

Place : Delhi Date : 14.11.2022

For and on behalf of the Board of Director for NDA Securities Limited

> Sanjay Agarwa (Managing Director DIN: 00010639

Place : New Delhi Date: 14.11.2022

ECL FINANCE LIMITED Edelweiss ECL Finance Ltd

Registered Office: Tower 3, Wing 'B', Kohinoor City Mall, Kohinoor City, Kiro Road, Kurla (West), Mumbai 400070, Maharashtra

DEMAND NOTICE

oan, the following Assets have been mortgaged to ECL by the said Borrower(s) respectively.

Under Section 13(2) of the Securitization And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act, 2002 read with Rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

The undersigned is the Authorized Officer of ECL Finance Limited (ECL) under Securitization And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the said Act). In exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Authorized Officer has issued Demand Notices dated 09-11-2022 under section 13(2) of the said Act, calling upon the following Borrower(s)/ Coborrowers/Gurantors/mortgagors (the "said Borrower(s)"), to repay the amounts mentioned in the respective Demand Notice(s issued to them that are also given below, the account of the Borrower(s) (the "said Borrower(s)") was rendered NPA or **04-11-2022.** In connection with above, Notice is hereby given, once again, to the said Borrower(s) to gay to ECL, within 60 days from the publication of this Notice, the amounts indicated herein below, together with further interest as detailed in the saic Demand Notice(s), from the date(s) mentioned below till the date of payment and/or realization, payable under the Loa Agreement read with other documents/writings, if any, executed by the said Borrower(s). As security for due repayment of th

| Co-Borrower(s) | date and amount | Description of secured asset (Immovable Property) |
|----------------------------------|---------------------|--|
| (Loan A/c No: LDELSSE0000040154) | 09.11.2022 of | All that the free hold built up property bearing No. 409, land |
| 1. Sidhartha Educational And | Rs. | admeasuring 300 sq. yds., shown in the layout plan of Delhi |
| Welfare Society (Borrower) | 12,43,78,835.16/- | Sainik C.H.B.S. Ltd. In the area of Vill. Salimpur Majra, Madipur, |
| 2. Mahender Singh Rana Alias | (Rupees Twelve | Delhi State, Delhi, popularly known as SAINIK VIHAR, |
| Mohinder Singh Rana Alias M.S. | Crores Forty Three | Pitampura, Delhi-110034 with the free hold rights of the land |
| Rana (Co-Borrower) | Lakhs Seventy | underneath said property. of thereabout Bounded as under:- |
| 3. Sakaar Education Trust | Eight Thousand | At or towards the North :- Road 45ft. wide, At or towards the |
| (Co - Borrower) | Eight Hundred | South :- 15ft Service Road, At or towards the East :- Plot No. |
| 4. Tkb Educational Initiatives | Thirty Five and | 408, At Or Towards The West :- Plot No. 410 (More |
| Pvt Ltd (Co-Borrower) | Sixteen Paisa Only) | Particularly Described In Reconveyance Deed Dated |
| 5. Amit Rana (Co-Borrower) | due as on 06th | 03.05.2011 Duly Registered As Reg No 5137/2011-12 At Sub |
| 6. Sheetal Rana (Co-Borrower) | November 2022. | Registrar Vi-A, New Delhi/delhi) |

If the said Borrowers shall fail to make payment to ECL as previously mentioned. ECL shall proceed against the above-secured assets under Section 13(4) of the Act and the applicable Rules, entirely at the risks of the said Borrowers as to the costs and consequences. The said Borrowers are prohibited under the Act from transferring the previously mentioned assets, whether by way of Sale, Lease or otherwise without the prior written consent of ECL. Any person who contravenes or abets contravention of the provisions of the said Act or Rules made there under, shall be liable for imprisonment and/or penalty as provided under the Ac Place : Delhi (NCR) Sd/- (Authorized Office)

HINDUSTAN ADHESIVES LIMITED

CIN:L74899DL1988PL031191 Reg. Office:- B-2/8 Safdarjung Enclave , Delhi -110029 Tel 41650347 Email ID info@bagla-group.com,website.www.bagla-group.com Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter Ended as on 30, September, 2022 Half Year ended Year Ende 30-09-22 30-06-22 30-09-21 30-09-22 30-09-21 31-03-22 **PARTICULARS** Total Income from operations (net) Net Profit / (Loss) for the period 7,385 238 45,340 1,813 295 (before Tax, Exceptional and /or Extraordinary items)
Net Profit / (Loss) for the period before Tax
(after Exceptional and /or Extraordinary items) 238 427 295 665 699 1,813 184 308 194 492 491 1,252 Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)
Total Comprehensive Income for the period
[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) 184 308 194 492 491 1,252 and Other Comprehensive Income (after tax)] Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of Previous Year) 512 512 512 512 512 Earnings per share (of Rs.10/-each) (for continuing and discontinued operations): (b) Diluted 3.59

I. The above unaudited financial results have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 14.11.2022 and the Statutory Auditor of the Company has issued their Limited Review Report on the same

2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Metropolitan Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements, 2015.The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Metropolitan Stock Exchange website Stock Exchange websites, namely The Bomba Stock Exchange Limited - www.bseindia.com, The Calcutta Stock Exchange -www.cse-india.com and the Company' website-www.bagla-group.com

For & on behalf of the Board

Director

(Amit Kumar) DIN- 06902856

M.S.Bagla Managing Directo DIN- 01425646 SIMBHAOLI SUGARS LIMITED

(Formerly known as 'Simbhaoli Spirits Limited') Regd. Office: Simbhaoli Dist. Hapur (U.P.) - 245207 CIN - L15122UP2011PLC044210

E-mail: info@simbhaolisugars.com Website: www.simbhaolisugars.com EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2022

| | | | | | , | | |
|-----------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | | | (Rs. Lacs) |
| | | G | uarter ende | ed . | Six Mont | hs ended | Year ended |
| S. No. | Particulars | September 30, 2022 | June 30, 2022 | September 30, 2021 | September 30, 2022 | September 30, 2021 | March 31, 2022 |
| NO. | | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Audited |
| 1 | Total income from operations (net) | 23,684.38 | 30,272.71 | 22,376.36 | 53,957.09 | 53,904.42 | 114,896.23 |
| 2 | Net Profit/ (loss) for the period before Tax and | | | | | | |
| | exceptional items | (4,011.47) | (1,636.22) | (2,456.24) | (5,647.69) | (2,926.16) | (882.16) |
| 3 | Net Profit/ (loss) for the period before Tax and | | | | | | |
| | after exceptional items | (4,011.47) | (1,636.22) | (2,456.24) | (5,647.69) | (2,926.16) | (2,122.11) |
| 4 | Net Profit/ (loss) for the period after Tax and | | | | | | |
| | exceptional items | (4,011.80) | (1,638.33) | (2,449.44) | (5,650.13) | (2,915.31) | (2,244.23) |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period | | | | | | |
| | [comprising net profit/(loss) for the period (after tax) | | | | | | |
| | and Other Comprehensive Income (after tax)] | (4,011.80) | (1,638.33) | (2,449.44) | (5,650.13) | (2,915.31) | (2,151.72) |
| 6 | Paid up equity share capital | | | | | | |
| | (face value Rs.10/- each) | 4,127.90 | 4,127.90 | 4,127.90 | 4,127.90 | 4,127.90 | 4,127.90 |
| 7 | Other Equity | | | | | | (11,053.15) |
| 8 | - EPS before exceptional item | (9.72) | (3.97) | (5.93) | (13.69) | (7.06) | (2.43) |

Refer Note no. 11

- EPS after exceptional item

The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter and half year ended on Septmber 30, 2022 filed wit the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The fu format of financial results for the quarter and half year ended on Septmber 30, 2022 are available on the Stock Exchange websit (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and the Company's website (www.simbhaolisugars.com)

(3.97)

(5.93)

(13.69)

(7.06)

(5.44)

(9.72)

For the half year ended on September 30, 2022 and in previous years, due to higher raw material cost i.e. sugarcane costs (SAF fixed by State government and relatively lower sales realization of finished sugar, adverse demand & supply scenario, national international market dynamics and other eternal factors, the Company had continuously incurred huge cash losses resulting i complete erosion of its net worth, rendering the Company unable to meet payment obligations towards its lenders as well as to the sugarcane farmers in terms of their respective agreements and understanding. All the production units of the Company are operation and continue to operate at sub-optimum levels on year on year basis while consistent efforts have been made for improvement in operational efficiency viz. improvement in sugar recovery, reduction in overheads and reduction in other operational and administrative costs etc, but due to lack of required working capital and no capex being undertaken towards augmentation of distillery units/sugar plants is still adversely impacting the operations. During the half year and quarter ended on September 30,2022, the Company ha completed crushing for Sugar season 2021-22 in all of its three sugar mills while comprehensive annual maintenance being undertaken to commence production operations for ensuing crushing season 2022-23. However, availability of required sugarcanic for optimal utilization of production capacities is still a challenge on account of aforesaid reasons. In distillery segment, no commissioning of incineration boilers and other equipments to meet the stringent requirement of Pollution control board is sti resulting in curtailed production levels. Further, The Company also expects to receive accrued benefits under the Sugar Industries Promotion policy 2004 for which it is entitled, but presently, the matter is sub-judice.

Recognizing the status of the sugar industry, the state and central governments have taken a number of measures in past to improve the financial health of sugar mills and to support the liquidation of sugarcane arrears by grant of soft loan, fixing minimum suppor price of sugar, and Ethanol blending program with petrol coupled with long term tendering and fixing remunerative selling price of ethanol etc. All these measures specifically ethanol blending programme, have resulted in revival of the sugar industry. Th Company is continuing to suffer and incurring losses on account of non-availability of sufficient sugar cane commensurate to it crushing capacities, on account of delayed payment of sugar cane prices due to adverse liquidity position, which have resulted it the diversion of sugar cane in the command areas to the other adjoining sugar mills. Benefits under soft loan could also not be availe since credit facility accounts with its lenders were having NPA categorization.

Due to default in repayment of credit facilities, lenders to the Company have initiated recovery proceedings at various forum including filing of applications before the Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT) under Section 7 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and also filing of recovery proceedings against personal guarantors (Promoters) before NCLT under section 95 of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 in addition to approaching Debt Recovery Tribunals in Delhi as well as in Lucknow Uttar Pradesh. One of the lenders had declared the Company and Guarantors to the credit facility, as Willful Defaulters, suc impugned order of lender was Set Aside by Hon'ble Punjab and Haryana High court at Chandigarh, while another lender had starte the proceedings to examine the Willful Default and a personal hearing was also granted, basis Company's representations th decision is kept in Abeyance. One lender has categorized the Company with Fraud tag and same is challenged before Delhi High Court. While one of the lenders had initiated recovery proceedings under section 138 of the Negotiable Instrument Act, wherein non bailable warrants were issued against the erstwhile directors and officials of the Company, which is being contested at the appropriate forum. Against a criminal complaint filed by one of the lenders, the Enforcement Directorate had passed an Attachment Order of certain assets of the Company to the extent of Rs. 109.80 Crore, against which the Company has preferred an appeal before will the appropriate authority and the matter is sub-judice. Therefore, Enforcement Directorate had proceeded to take the Constructive Possession of the Attached Property on which an Interim Stay has been granted by the Hon'ble Appellate Tribunal

The Company is continuing to pursue a comprehensive debt resolution proposal with all the lenders. Commercial lenders have shown their inclination to accept the debt resolution proposal and accepted the Earnest Money offered thereof, while Debt realignment proposal was submitted to other lenders against which the Company had initiated the repayments, pending approval of respective lenders. Revised and improved debt resolution proposal given to commercial lenders on bilateral basis is under consideration whi application filed with Hon'ble NCLT Bench, Allahabad is being heard. The Company is also exploring/ evaluating various option for debt resolution to streamline the business and enhance the Company's value.

Considering the steps initiated for achieving turnaround of the Company and sugar sector, and continuing manufacturing operatio in near foreseeable future with improved operational efficiency, these financial results are continued to be presented on Goin Concern basis, which contemplates realization of assets and settlement of liabilities, in the normal course of business, According property, plant and equipment's are continued to be stated at carrying amount without testing for impairment, if any.

The credit facilities availed by the Company have been classified as non-performing assets (NPA) by all the lenders and interest thereon is not being charged to the loan accounts by commercial lenders as per RBI's circular. The Company has submitte comprehensive debt resolution proposals with all the lenders to commensurate with its future cash flows including infusion of fund by strategic investor, promoters, internal accruals, monetization of assets etc. which contemplates the total waiver of interest an concession in repayment of principal amount. Commercial lenders have accepted the Earnest Money Deposit (EMD) offered in consonance with the Debt Resolution Proposal. Accordingly, the Interest expenses on credit facilities pertaining to commercial lenders, for the quarter and six month ended September 30, 2022 amounting to Rs. 4,622.20 lacs and Rs. 9,285.68 lacs Respectivel (previous quarter and six month ended September 30,2021 amounting to Rs. 4,382.77 lacs and Rs. 8,517.89 lacs respectively) ha not been recognized in profit and loss account. An accumulated amount of Rs. 79,215.17 lacs towards accrued interest has not bee provided for in the books of accounts as on September 30, 2022.

The Hon'ble High Court of Uttar Pradesh had directed the state government to determine the interest liability for the period of delaye payments of sugarcane price to cane growers for the sugar seasons 2012-13 to 2014-15 by the UP sugar industry. The Company has received a notice for payment of interest on delayed payment of cane price for sugar season 2012-13, and the Company had mada representation against the aforesaid demand notice with the Cane Commissioner based on past practice of waiver/non-levying or any interest on account of delayed payment of cane price. Considering the above, no provision towards the interest on delayed payment of cane price for the aforesaid and subsequent sugar seasons has been made in the accounts. No demand notices have been raised on the Company, except for sugar season 2012-13. The amount of interest on account of delayed payment of cane pri not provided for in the accounts, could also not be quantified.

Integrated Cashtech Consultants Private Limited ('ICCPL'), a subsidiary company had recognized revenue of Rs. 462.57 lacs in the financial year 2020-21 as unbilled revenue in respect of certain customers in accordance with the terms of agree between ICCPL and its customers as the customers had not accepted the claims of ICCPL, on account of certain disputes, ICCPL moved to arbitration for the settlement of disputes and expects that the matter will be settled in its favour. Accordingly, unbille revenue had been carried on at the same amount and the final adjustments, if any, will be made after the settlement with the parties The statutory auditors have given qualified opinion on the reviewed financial statements of ICCPL for the guarter ended 30. September 1. 2022, on non-provision of credit loss and of probable estimated loss arising on the settlement of the aforesaid unbilled revenue

In the audited financial statements of Simbahaoli Power Private Limited ('SPPL') for the year ended March 31, 2021, the statutor auditor of the SPPL has drawn Emphasis of Matter in respect of following "During the year ended March 31, 2021, Uttar Prades Electricity Regulatory Commission ('UPERC') has notified UPERC (Captive and Renewable Energy Generating Plants) Regulations 2019 ('CRE Regulations, 2019') which has, inter alia, reduced the tariff applicable to bagasse-based generation plants operating i the state of Uttar Pradesh w.e.f. April 1, 2019. SPPL, along with bagasse-based generation plants operating in the State, have filea writ petition with Hon'ble High Court of Allahabad, Lucknow Bench, challenging CRE Regulations, 2019 which have been accepted by the Court.

Based on the writ petition filed and legal opinion obtained, SPPL has recorded revenue from operations for the period from April 2019 to September 2019 at pre CRE Regulations, 2019 tariff instead at the reduced tariff as per CRE Regulations, 2019. w.e.f. October 2019, SPPL has accounted for sale of power to Uttar Pradesh Power Corporation Ltd. (UPPCL), the customer at reduced tariff rate under protest and subject to outcome of Hon'ble High Court decision on writ petition. SPPL's computation, shows that revenue from operations for year ended March 31, 2020 would have been lower by Rs. 683 lac

if accounted for at or basis reduced tariff as per CRE Regulations, 2019. With regard to the above stated conditions and on account of difference in interpretation of certain long term commercial agreement

the statutory auditors of SPPI have drawn material uncertainty related to going concern

In the consolidated financial results of the Company for the six months ended 30 September, 2022 and for year ended March 31, 202 and for all the preceding quarters, the financial results of SPPL, a material subsidiary have not been consolidated, as the financial results of SPPL have not yet been finalized and approved till date.

The transactions entered into between the Company and SPPL for the six months ended September 30, 2022, which have not been se eliminated in the consolidated financial results, have resulted in increase in the total revenue by Rs. 881.88 lacs and total expense by Rs. 101.44 lacs. Further, increase in the balances of subsidiary of Rs. 2.381.43 lacs have been included in the consolidate

The Board of Directors of the Company has proposed the re-appointment of Ms. Gursimran Kaur Mann, as Managing Director of the Company w.e.f. August 02, 2021 and Mr. Sachchida Nand Misra as Chief Operating Officer and Whole Time Director w.e.f. September 18, 2021 for a period of 2 years. The Company has also approached the lenders for acceding consent for payment of the remuneration to MD and COO & WTD. The Special Resolutions were passed at the 10th Annual General Meeting (AGM) held on September 27 2021. Lenders with majority share in outstanding debt have provided their consent to pay the remuneration to above named person The Company is actively pursuing with other lenders for obtaining their consent, having belief that consent will be received in due course, and payment of remuneration has been made from the date of re-appointment, as stipulated by the majority of lenders led by the State Bank of India. till September 30, 2022 amounting to Rs. 162.14 Lacs including Rs. 36.89 lacs for the quarter ended Septemb

Consequent to revision in the wage rates of workmen in UP sugar and distillery industries with retrospective effect from October 2018 and September 01, 2016 respectively, the Company has accounted for additional liability of Rs. 806.88 lacs under Employee Benefits expenses during the current quarter

Consequent to increase in levy obligation on Molasses from 18% to 20% of the production with retrospective effect from Octob

01, 2021, the Company has recognized loss of Rs. 309.00 lacs during the quarter

12 The standalone results are available on Company's website www.simbhaolisugars.com. The particulars in respect of standalor results are as under

| | | | | | (Rs. Lacs) |
|------------|--|---|---|---|---|
| C | luarter ende | d | Six mon | Year ended | |
| 30.09.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2021 | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 31.03.2022 |
| 23,388.01 | 29,956.57 | 22,372.66 | 53,344.58 | 53,900.72 | 113,478.17 |
| 4,020.70 | (1,651.79) | (2,434.19) | (5,672.49) | (2,893.89) | (922.44) |
| 4,020.70 | (1,651.79) | (2,434.19) | (5,672.49) | (2,893.89) | (1,019.69) |
| - | - | - | - | - | 84.05 |
| 4,020.70 | (1,651.79) | (2,434.19) | (5,672.49) | (2,893.89) | (935.64) |
| (2,578.42) | (219.59) | (921.86) | (2,798.01) | 176.44 | 5,184.76 |
| | 30.09.2022 23,388.01 4,020.70 4,020.70 - 4,020.70 | 30.09.2022 30.06.2022 23,388.01 29,956.57 4,020.70 (1,651.79) 4,020.70 (1,651.79) 4,020.70 (1,651.79) | 23,388.01 29,956.57 22,372.66 4,020.70 (1,651.79) (2,434.19) 4,020.70 (1,651.79) (2,434.19) | 30.09.2022 30.06.2022 30.09.2021 30.09.2022 23,388.01 29,956.57 22,372.66 53,344.58 4,020.70 (1,651.79) (2,434.19) (5,672.49) 4,020.70 (1,651.79) (2,434.19) (5,672.49) - - - - 4,020.70 (1,651.79) (2,434.19) (5,672.49) | 30.09.2022 30.06.2022 30.09.2021 30.09.2022 30.09.2021 23,388.01 29,956.57 22,372.66 53,344.58 53,900.72 4,020.70 (1,651.79) (2,434.19) (5,672.49) (2,893.89) 4,020.70 (1,651.79) (2,434.19) (5,672.49) (2,893.89) - - - - - - 4,020.70 (1,651.79) (2,434.19) (5,672.49) (2,893.89) |

3 The previous periods figures have been regrouped/rearranged wherever necessary

Place: Simbhaoli (Hapur).India

4 The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Compar at their respective meetings held on November 14, 2022.

For Simbhaoli Sugars Limite Gursimran Kaur Mann Managing Director

Date: November 14,2022 DIN: 00642094 ur, (U.P.), India



दिल्ली में इस वर्ष अब तक डेंग के 2,700 से अधिक मामलों की पृष्टि

पैमाने पर डेंगू का प्रकोप देखा गया था, अक्टूबर में मामलों की संख्या

10,600 को पार कर गई थी।

1996 के बाद से यह दिल्ली का

रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में जनवरी में डेंगू के 23 मामले,

फरवरी में 16, मार्च में 22, अप्रैल

में 20, मई में 30, जून में 32,

सोमवार को जारी एमसीडी की

सबसे खराब डेंग का प्रकोप था।

में नवंबर के शरुआती दो सप्ताह में डेंगू के करीब 600 मामले सामने आए हैं, जिससे इस साल मच्छर जनित बीमारी के संक्रमण की संख्या बढकर 2,700 से अधिक हो गई है। नगर निगम द्वारा सोमवार को जारी रिपोर्ट से यह जानकारी मिली। अक्टूबर के महीने में डेंग् के।,238 मामले दर्ज किए गए थे। चार नवंबर तक डेंगू संक्रमण की संख्या 2,470 थी और इस महीने 11 नवंबर तक 291 मामले दर्ज

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) मलेरिया के 212 और चिकनगुनिया के 43 मामले भी दर्ज किए गए हैं। डेंगू के कुल रिपोर्ट किए गए 2,761 मामलों में से 693 सितंबर में सामने आए थे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 में दिल्ली में एक जनवरी से



जलाई में 26 और अगस्त में 75 मामले दर्ज किए गए। डेंगू और मलेरिया जैसी मच्छर जनित मामले दर्ज किए गए थे। रिपोर्ट के अनुसार, इस साल अब तक इस बीमारी से किसी की मौत नहीं हुई बीमारियों के मामले आमतौर पर है, जबिक 2021 में डेंगू से 23 लोगों की जान चली गई थी। जुलाई और नवंबर के बीच रिपोर्ट किए जाते हैं, जो कभी-कभी दिसंबर के मध्य तक फैलते हैं। वर्ष 2015 में दिल्ली में बड़े

एमसीडी के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, मच्छर जनित बीमारियों के लक्षणों में तेज बुखार, सिरदर्द, दाने और मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द शामिल हैं, जो कि कोविड-19 के शामिल है, जा कि काविड-19 के समान हैं, जिसमें बुखार या ठंड लगना, मांसपेशियों या शरीर में दर्द, थकान और सिरदर्द भी

जलबोर्ड के कोष में कथित हेराफेरी को लेकर भाजपा ने की केजरीवाल पर प्राथमिकी की मांग

नर्ड दिल्ली, (वीअ)। भारतीय

जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई ने सोमवार को कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली जल बोर्ड में 20 करोड़ रुपये के घोटाले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए।एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधुडी ने कहा कि कथित घोटाले का 2018 में खुलासा हुआ था जब केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष थे। भाजपा नेता ने कहा, मैं मानता हूं कि यह बड़ा घोटाला है। 2018 में इसके खुलासे के बाद, जब केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष थे, कोई भी कार्वाई करने के बजाए, आरोपियों से कमीशन लिया गया। दिल्ली जल बोर्ड के कोष में 20 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी के राज्य का कायत हराकरा के सिलसिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी। ने शनिवार को एक

दिल्ली में कारोबारियों से उगाही कर रही भाजपा, सफाई कर्मियों के वेतन में देरी की :आप

वीर अर्जुन संवाददाता नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री

मनीष सिसोदिया ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर यहां कारोबारियों से उगाही करने और सफाई कर्मियों के बेत्र में देरी करने का आरोप लगाया।

उन्होंने दावा किया कि अनुपयुक्त कूड़ा प्रबंधन से दिल्ली को बर्बाद कर दिया है।

इस बीच, आम आदमी पार्टी (आप) ने दावा किया कि राष्ट्रीय राजधानी में भाजपा के सभी जिला प्रमुखों ने चार दिसंबर के दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) चुनाव से पहले इस्तीफा दे दिया। सिसोदिया ने कहा, भाजपा ने सफाई कर्मियों को समय पर वेतन् नहीं दिया। राष्ट्रीय राजधानी में व्यापारियों और लोगों से उगाही की। एमसीडी में सत्ता में रहते हुए पार्टी (भाजपा) ने अनुपयबत कूड़ा प्रबंधन से शहर को बर्बाद कर दिया और जन कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि शहर के लोग भाजपा और शहर में फैले हुए कूड़े से निजात पाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा इसे लेकर ऊहापोह की स्थिति में है कि उसके



उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया

नेता साजिश के आधार पर एमसीडी चनाव लड़ें या उन्हें (सिसोदिया को) जेल भेजकर चुनाव लड़ें। सिसोदिया ने दिन में, पूर्वी दुनाव राज्ञा । संसादिवा न दिन में, नूवा दिल्ली के एक नामांकन केंद्र पर आप के उम्मीदवारों से मुलाकात की और उन्हें शुभकामना दी। आप के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने संवाददाता सम्मेलन में कहा. जिला प्रमख एक प्रमख पद होता है

भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष आदेश गुप्ता को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उन्होंने सही समय पर सही फैसला लिया। इस बीच भाजपा के कई स्थानीय नेता यहां सोमवार को आप में शामिल हो गये। आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता दर्गेश रोहिणी के वार्ड नंबर-53 से भाजपा के 11 नेता आज आप में शामिल हो गए क्यों कि भाजपा में उनकी मेहनत को

स नाता. हो गए क्योंकि भाजपा न प्रा कभी सराहा नहीं गया। ---- ने कहा, वे पिछले 15 वर्ष से प्राप्त कर बार पाठक ने कहा, वे पिछले 15 वर्ष से कड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन हर बार जब उन्होंने क्षेत्र में कूड़ा प्रबंधन से संबंधित कोई मुद्दा उठाया तो अधिकारियों ने उनकी

... आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले भाजपा नेताओं में पूर्व वार्ड उपाध्यक्ष पूजा अरोड़ा और महिला मोर्चा की पूर्व उपाध्यक्ष चित्रा लांबा और भावना जैन शामिल है। एमसीडी चुनाव के तहत मतदान चार दिसंबर को होगा और मतगणना सात दिसंबर को होगी।

पूर्व महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने

भाजपा प्रत्याशियों के भरवाए नामांकन पत्र

अध्यापकों व शोधार्थियों के साथ चुनाव कार्यशाला का आयोजन की राजनीति मैं इस बार नए

रोहताण नगर विधानसभा के तहत पर्वी राम नगर वार्ड से कांग्रेस

प्रत्याशी परमानन्द शर्मा दल वल के साथ पहुंचे डी.एम.दफ्तर निगम चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने, इस मौके पर क्षेत्र के पूर्व विधायक विपिन शर्मा सहित अनेक लोग थे उनके साथ।

एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली के रोहिणी वार्ड

नई दिल्ली, (बीअ)। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई स्थानीय नेता सोमवार को यहां आम आदमी पार्टी (आप) में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने कहा, रोहिणी के वार्ड नंबर-53 से भाजपा के 11 नेता आज आप में शामिल हो गए क्योंकि भाजपा में उनकी मेहनत को कभी सराह जाज जाप न रामान्य है। गयु प्याप्त माजपा न उपका महत्त्र पक्ष कि हो महत्त्र कर रहे हैं त्रहीं गया। दुर्गेश पाठक ने कहा, वे पिछले 15 वर्ष से कड़ों महत्त्त कर रहे हैं लेकिन हर बार जब उन्होंने क्षेत्र में कचरा प्रबंधन से संबंधित कोई मुद्दा उठाया तो अधिकारियों ने उनकी उपेक्षा की। आम आदमी पार्टी में शामिल होने

से भाजपा के 11 नेता आप में शामिल हए

वाले भाजपा नेताओं में पूर्व वार्ड उपाध्यक्ष पूजा अरोड़ा और महिला मोर्चा की पूर्व उपाध्यक्ष चित्रा लांबा और भावना जैन शामिल हैं।

डीसीडब्ल्यू ने प्रेमिका के शव के ट्कड़े करने के मामले में पुलिस से रिपोर्ट मांगी

नई दिल्ली, (वीअ)। दिल्ली . (वाज)। दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने पुलिस को सोमवार को नोटिस जारी करते हुए यहां 29 वर्षीय महिला की कथित तौर पर उसके सहजीवन साधी तार पर उसक सहजावन साथा (लिव-इन पार्टनर) द्वारा हत्या करने के मामले में 18 नवंबर तक उसे कार्वाई रिपोर्ट सौंपने को कहा है। आरोपी आफताब अमीन पूनावाला (28) ने श्रद्धा वालकर के शव को कथित तौर पर 35 टुकड़ों में काटा, उन्हें तकरीबन तीन सप्ताह तक फिज में रखा और कई दिनों में दिल्ली के विभिन्न इलाकों में उन्हें फेंक दिया। अधिकारियों ने बताया कि पनावाला की गिरफ्तारी के साथ यह नृशंसा घटना छह माह बाद सामने आयी। उनके अनुसार महिला के शव के कटे हए कुछ हिस्से मिले हैं तथा पुलिस हत्या में प्रयुक्त हथियार तलाश रही है। उन्होंने बताया कि आरोपी ने शव के कटे हुए हिस्सों को रखने के लिए 300 लीटर वाला एक फ्रिज खरीदा तथा शव से आने वाली बदवू को

दवाने के लिए अगरवत्तियों एवं रूम फ्रेशनर का उपयोग

... एक अधिकारी ने बताया कि मंबई में एक कॉल सेंटर में नुबह न एक पाल सटर न 1 करने के दौरान पूनावाला : श्रद्धा वालकर को एक दूसरे से प्यार हुआ, लेकिन जब उनके परिवारों ने दोनों के अलग-अलग धर्म होने के कारण इस रिश्ते का विरोध किया तब यह युगल इस साल के प्रारंभ में दक्षिण दिल्ली के

क प्रारम में दोक्ना दिल्ली क महरौली आ गया। डीसीडब्ल्यू ने दिल्ली पुलिस से मामले में प्राथमिकी जाएक संमानल में प्रायमिका की एक प्रति के साथ ही अन्य जानकारियां भी मांगी है। आयोग ने पलिस से कहा कि वह यह जानना चाहता है कि क्या वालकर ने अपने साथी के खिलाफ उत्पीड़न, घरेलू हिंसा या यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत दर्ज करायी थी।



मामला दर्ज किया।

केंद्र ने 14 नवंबर 2022 को अपने सभी छात्रो, अध्यापकों व शोधार्थियों के साथ चुनाव सीजीएस समीक्षाः गुजरात विधान सभा की शुरुआत कर दी है। समीक्षा श्रृंखला के तहत, केंद्र ने पहले भी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल असम दिल्ली नगर निगम, पंजाब और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चनावों में सभी जिलों, निर्वाचन क्षेत्रों और वार्डों को कवर करते हुए काफी सफल सर्वेक्षण किए हैं। केंट के नि हैं। केंद्र के निदेशक डप्रो. सुनील के चौधरीड़ का कहना है कि यह पहली बार है जब डीयू के छात्र गुजरात विधानसभा चुनाव का सर्वेक्षण करेंगे। इससे पहले केंद्र ने 7 चुनाव सर्वेक्षण कराए हैं जिनमें से 2017 में केंद्र ने 83 हजार सैंपल लेकर उत्तर प्रदेश का सर्वे किया था। यह केंद्र का आठवाँ सर्वेक्षण है, जो ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों प्रकार से

विश्वविद्यालय বিभিন্ন

को अधिक समावेशी और समग्र अभ्यास बनाने के लिए डीयू के विभिन्न कॉलेज व अन्य विश्वविद्यालयों के लगभग 200 छात्रों को जोड़ा जाएगा, जि एम ए. एमफिल व पीएचडी के भी सम्मिलित होंगे जिनकी एक टीम 27 नवंबर 2022 को गुजरात के प्रथम चरण के जिलों में जा रही है। जिसके पश्चात 30 नवंबर 2022 को दूसरे चरण के सर्वेक्षण किए जाएँगे। इससे पहले केंद्र ने हाल ही में हुए हिमाचल प्रदेश चनावों का सफल सर्वेक्षण कर

सर्वेक्षण के जैसे कि कॉलेजो भारती कॉलेज, अदिति महाविद्यालय, श्याम लाल कॉलेज, इत्यादि एवं हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विधानसभाओ के कुछ इस्थानिय विश्वविद्यालयो न बढचढकर हिस्सा लेकर इस सर्वेक्षण को सफल बनाया है। साथ ही केंद्र की और से कुछ शोधार्थी ऑफलाइन सर्वेक्षण करते हुए राज्य के अलग अलग जिलों जैसे कि मंडी, कांगरा, शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू इत्यादि मै भी गए, इस सर्वेक्षण के माध्यम से यह निकलकर आया है कि हिमाचल

परिवर्तन देखे जा सकते है, प्रदेश में मतदाता अब महों पर अधिक बल देकर नए परिवर्तेन जैसे कि , नए अस्पताल, विश्विद्यालय, अच्छी शिक्षा. बेरोजगारी का समाधान कास एवं अभिशासन चाहता है। यहाँ पर कुछ वर्ग ऐसे भी पाये गए जिनको साइलेंट वोटर्स कहा जा सकता है, जिसमें की महिलाओं की संख्या अधिक नज़र आई, इस प्रकार हिमाचल की राजनीति को ऑफलार्च एव ऑनलार्च सर्वेशण के माध्यम से सफल रूप अध्ययन किया गया। वस्तनिष्ठ एवं वज्ञानिक तरीके से अब तक किए सर्वेक्षण शोधकर्ताओं द्वारा एक स्वतंत्र और स्वायत्त सर्वेक्षण रहे हैं जिसका एक आधार समग्रता भी रहा। जो ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से आयोजित किये गये है। इसी कडी मैं केंद्र द्वारा गुजरात विधानसभा चनाव सर्वेक्षण एक सावधानीपर्वक . योजित और उद्देश्यपूर्ण अभ्यास है जो युवा शोधकर्ताओं के सेफोलॉजिकल अभिविन्यास को

आप ने दिल्ली भाजपा के सभी जिलाध्यक्षों के इस्तीफे का किया

दावा किया कि दिल्ली भाजपा के

दावा. भाजपा ने खारिज किया नई दिल्ली, (विसं)। आम आदमी पार्टी (आप) ने सोमवार को

नई ऊँचाइयाँ देगा।

सभी जिलाध्यक्षों ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) चुनाव से पहले इस्तीफा दे दिया है क्योंकि पार्टी ने परिणाम पहले ही भांप लिया है। भाजपा ने दावे को खारिज करते हुए कहा कि आप नेता झूठ बोलने की मशीने हैं और भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सफाई की कमी राजधानी के निवासियों के सामने सबसे बड़ी समस्या है और अगर आप दिल्ली नगर निगम चुनाव जीतती है तो उनकी पार्टी शहर को कचरा मुक्त करेगी। भाजपा पर निशाना साधते करगा। भाजपा पर । नशाना साधत हुए भारद्वाज ने कहा, वे आगामी चुनावों के परिणाम को पहले ही भांप चुके हैं। भाजपा के सभी जिलाध्यक्षों ने एमसीडी चुनाव से पहले अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा, यह आप की ताकत का इतना महत्वपूर्ण संकेतक है और दिखाता है कि 7 दिसंबर को परिणाम घोषित होने पर एमसीडी में क्या होने की संभावना है। उन्होंने कहा, भाजपा जैसे राजनीतिक दल के लिए जिलाध्यक्ष का पद महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके माध्यम से ही वरिष्ठ नेता लोगों के संपर्क में रहते हैं। सभी जिलाध्यक्षों द्वारा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गप्ता को अपना इस्तीफा साँपने की खबर इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाजपा ने एक बयान में कहा कि भारद्वाज सहित आप नेता झूठ बोलने बाली मशीनै हैं, जो खबरों में बने रहने के लिए रोज एक नया द्यत बोलते हैं। भाजपा एमसीडी चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष आशीष सूद ने कहा, उन्हें (आप) भाजपा की चिंता नहीं करनी चाहिए, हम

200 से अधिक सीटें जीतेंगे।

. भरत भदोरिया के नामांकन पत्र भरने जाने से पर्व उनके साथ पद यात्रा में श्याम सुन्दर अग्रवाल में बताया यात्रा में क्षेत्रवासियो का उत्साह

देखते ही बनता था प्रत्याशियों का क्षेत्रवासियों ने माला पहनाकर,

वीर अर्जुन संवाददाता नई दिल्ली। नामांकन के अंतिम

ने शाहदरा वार्ड से प्रत्याशी

दिन पूर्व महापौर श्याम सुन्दर

भारत गौतम एवम शास्त्री वार्ड से

पुष्पवषा कर स्थानका, पर प्रत्याशियो को तिलक लगाकर एवम मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी।श्याम सुन्दर अग्रवाल ने कहा जिस प्रकार का माहौल दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी 2 तिहाई से अधिक सीटों के साथ सत्ता में वापिसी करेगी पटवाना के बाट गीता कॉलोनी एसडीएम में जाकर सभी ने अपने अपने नामांकन

वर्षा कर स्वागत किया,कई घरों



उत्तर पर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के तहत रोहताश नगर वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी सरिता सुनील कुमार नामांकन भरने जाते हुए ,साथ है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस सेवादल के अध्यक्ष सुनील कुमार तथा अन्य।

मारूफ को मिला फार्मा रात्ना अवॉर्ड

नई दिल्ली। नैनोज़ मेडिकेयर के एमडी डॉ मारूफ को फार्मा रात्ना अवॉर्ड 2022 से नवाज़ा गया। अवॉर्ड मिलने पर डॉ मारूफ कहा कि ये अवॉर्ड फार्मा इंडस्ट्री के उन हजारों-लाखों लोगों को समर्पित है जो कोरोना काल में ढाल बनकर खड़े रहे और दुनियाभर में करोड़ो लोगों की दबाइयों की ज़रूरतों को पूरा किया । दिल्ली के पाइड प्लाजा होटल में फार्मा रत्न यूनिवर्स का आयोजन हुआ जिसमें फार्मा जगत जुड़ी नामचीन हस्तियां शामिल . । इस आयोजन में युनाइटेड कगडम, यूएई, कीनिया, ओमान तंज़ानिया, वियतनाम, युगांडा, आना जैसे देशों से फार्मा इंडस्ट्री से जड़े दिग्गज शामिल हए । डॉ मारूफ की कामयाबी देश के हर नौजवान के लिए एक मिसाल है 2007 में दिल्ली के जामिया हमदर्द से डिग्री के लेने के बाद डॉ मारूफ ने पीछे मुड़के नहीं देखा । पहले 1 साल दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में काम किया 2008 में गाजियाबाद में पहला अस्पताल शुरू किया दूसरा अस्पताल 2012 में खोला 2016



की शुरूआत की 2018 नेनोज़ मेडिकेयर एक्सपोर्ट कंपनी शुरू की 2018 में वृंदा वायोटेक के नाम से मेडिसिन मेनुफेक्चरिंग यूनिट आरंभ की । आज मारूफ फार्मा जगत में देश-विदेश में जाना पहचाना नाम हैं। उनकी मेनुफेक्चरिंग यूनिट में बनी दवाईयां देश- विदेश में लाखों लोगों के काम आती हैं। डॉ मारूफ विदेश में भी देश का नाम रौशन कर रहे है उनकी फैक्टी में बनी दवाइयों एशियन, गल्फ और आ कंट्रीज़ में भारी डिमांड है ।,

विन्ट्रॉन इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड CIN: L72100DL1991PLC045276 पंजीकृत कार्यालयः डी–107 एवं 108, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-।, नई दिल्ली–110020 फोन: ईपीएबीएक्स-4374000, फैक्स: +91-11-43740040 www.vintroninformatics.com, ई-मेल: vil_vintron@hotmail.com

र, 2022 को समाप्त दूसरी तिमाही एवं छमाही के लिए अर

| | 30.09.2022 (अलेखापरीक्षित) | 30.06.2022 (अलेखापरीक्षित) | 30.09.2021 (अलेखापरीक्षित) | 30.09.2022 (अलेखापरीक्षित) | 30.09.2021 (अलेखापरीक्षित) | 31.03.2022 लेखापरीक्षित |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| प्रचालनों से कुल आय (निवल) | 588.07 | 817.63 | 432.45 | 1,405.70 | 611.47 | 1,718.82 |
| अपवादात्मक / अतिविशिष्ट मदों और कर पूर्व निवल लाभ / (हानि) | 91.49 | 17.98 | (40.56) | 109.47 | (107.10) | (92.94) |
| अपवादात्मक / अतिविशिष्ट मदों और कर पश्चात निवल लाभ / (हानि | 91.49 | 17.98 | (128.71) | 109.47 | (195.25) | (181.09) |
| अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर पश्चात) और | 91.49 | 17.98 | (128.71) | 109.47 | (195.25) | (181.34) |
| अन्य य्यापक आर्य (कर पश्चात शामिल) | | | | | | |
| इक्विटी शेयर पूंजी | 783.66 | 783.66 | 783.66 | 783.66 | 783.66 | 783.66 |
| आरक्षित (पिछले वर्ष के तुलनपत्र में दर्शाये गये पुनर्मृत्यांकन आरक्षित को छोड़कर) | - | - | - | - | - | (1,940.07) |
| प्रति शेयर अर्जन (अतिविशिष्ट मदों से पूर्व) (रु. 1/- प्रत्येक) | | | | | | |
| मूल: | 0.12 | 0.02 | (0.05) | 0.14 | (0.14) | (0.12) |
| बायल्युटिडः | 0.12 | 0.02 | (0.05) | 0.14 | (0.14) | (0.12) |
| प्रति शेयर अर्जन (अतिविशिष्ट मदों के बाद) (रु. 1/- प्रत्येक) | | | | | | |
| मूल: | 0.12 | 0.02 | (0.16) | 0.14 | (0.25) | (0.23) |
| बायल्यूटिवः | 0.12 | 0.02 | (0.16) | 0.14 | (0.25) | (0.23) |
| ि प्पर्काः 1. सेवी (सचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 | के संबर्ध में का | क्षेत्रक अनेकामधी | San frahm nithu | mi at alasmat | भा अधिकि जात | साधिक की गर्न |

। आयाजत निरंबक मंडल की बैठक में अनुमीदित किया गया है और कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा इनकी समीक्ष , फिड़नी अधीय के आंकडों को पुन. समृहित, पुन. स्मीहत किया गया है। प्रध्याएं एयं प्रकटन आययकताएं। विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत रहीक एक्सचेंजों के पास दाखित विमाही / छमाही । सारांग हैं। अर्तवापरीवित एकत विनिध परिणामी का पर्ण प्रस्ता करोक एक्सचेंजों की नेक्सकट ///

NDA SECURITIES LIMITED

CIN: 1.74899D1.1992C050366

Registered Office: E-157, Second Floor, Kalka Ji, New Delhi- 110019

Phone: 91-46204000, Fax: 91-11-46204050, Email: info@ndaindia.com, Website: w Statement of Extract of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter ended Sep 30, 2022

| | | Standalone Consolidated | | | | Consolidated | | | | |
|---|------------|-------------------------|------------|------------|------------|--------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| Particulars | Quarte | er Ended | Half Yea | r Ended | Year Ended | Quarte | ter Ended Half Year Ended | | Year Ended | |
| | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 31.03.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 31.03.2022 |
| | Unaudited | | | Audited | Unaudited | | | | Audited | |
| Total Income | 141.39 | 205.13 | 308.56 | 380.68 | 802.50 | 141.59 | 205.37 | 308.95 | 381.10 | 803.38 |
| Net Profit Before Tax | 1.95 | 23.79 | 14.68 | 40.10 | 86.09 | 1.24 | 22.56 | 13.21 | 37.95 | 82.21 |
| Net Profit After Tax | -1.59 | 23.77 | 7.83 | 40.16 | 77.89 | -2.29 | 22.54 | 6.39 | 38.01 | 74.01 |
| Comprehensive income for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)] | -8.06 | 0.67 | -9.45 | 0.80 | 7.50 | -8.06 | 0.67 | -9.45 | 0.80 | 7.50 |
| Total Comprehensive income | -9.65 | 24.44 | -1.62 | 40.96 | 85.39 | -10.35 | 23.21 | -3.06 | 38.81 | 81.51 |
| Paid up Equity Share Capital (FV 10/-) | 509.22 | 509.22 | 509.22 | 509.22 | 509.22 | 509.22 | 509.22 | 509.22 | 509.22 | 509.22 |
| Other Equity | | | | | 319.31 | | | | | 289.89 |
| Earning Per Share in Rupees (Per Share of Rs. 10/- each Basic and Diluted) | -0.19 | 0.48 | -0.03 | 0.80 | 1.68 | -0.20 | 0.46 | -0.06 | 0.76 | 1.60 |

For and on behalf of the Board of Dir